

प्रेस विज्ञापि

दिनांक- 04.09.2021

लोगों के अंगूठों के बायोमेट्रिक क्लोन व आधार कार्ड का प्रयोग करके उनके बैंक खातों से फर्जी तरीके से रुपये निकालने वाले गिरोह के 04 शातिर सदस्य साइबर क्राइम टीम व थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से 51,500 रुपये नकद, 01 वैगनआर कार, 02 मोबाइल फोन व अंगूठे के निशान का क्लोन बनाने के उपकरण आदि सामान बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार जनपद में चलाये जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक अपराध श्री कमलेश बहादुर एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री हरेंद्र कुमार के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री सुरेश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 03-09-2021 को साइबर क्राइम टीम एवं थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर अभिसूचना के आधार पर अगवाल फ्लाईओवर के नीचे एक वैगनआर कार में सवार अंगूठों के निशानों के बायोमेट्रिक क्लोन व आधार कार्ड का प्रयोग करके लोगों के बैंक खातों से फर्जी तरीके से रुपये निकालने/ठगी करने वाले गिरोह के 04 शातिर सदस्यों को सायं 17.30 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर 51,500 रुपये नकद, 02 मोबाइल फोन व अंगूठे के निशान का क्लोन बनाने के उपकरण आदि सामान बरामद हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. रिजवान पुत्र शौकत अली निवासी ग्राम इब्राहिम जुनैदपुर उर्फ मौजपुर थाना खुर्जा नगर बुलन्दशहर। हाल- मौ0 पंजाबियान कस्बा व थाना खुर्जा नगर बुलन्दशहर।
2. यासीन पुत्र यामीन निवासी मौ0 शेखपैन कस्बा व थाना खुर्जा नगर बुलन्दशहर।
3. दानिश पुत्र रहीश निवासी अमरपुर थाना खानपुर बुलन्दशहर हाल-मौ0 शेखपैन कस्बा खुर्जा नगर बुलन्दशहर।
4. संजय पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम किला मेवाई थाना खुर्जा नगर बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- 51,500 रुपये नकद
- 2- 01 वैगनआर कार नं0- यूपी-13क्यू-4853
- 3- 02 मोबाइल फोन
- 4- अंगूठे के बायोमेट्रिक क्लोन बनाने के उपकरण- 01 बायोमेट्रिक फिंगरप्रिन्ट स्कैनर मशीन, 01 कनैक्टर, 01 स्टाम्प पैड, 05 रबर के मानव अंगूठा क्लोन बनाने के उपकरण, 05 अंगूठे के बायोमेट्रिक क्लोन, 01 एसर सीपीयू, 01 डाटा केवल, 01 कीबोर्ड, 01 एलईडी एसर कम्पनी, 01 माउस, 02 पैन ड्राईव, 02 फिंगरप्रिन्ट बने कार्ड, फिनो पेमेंट बैंक कीट, 06 फिनो पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड, 07 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंक के, 07 लोन अप्लाई करने के ब्लैंक फार्म, पर्सनल लोन एप्लीकेशन फार्म मय आधार कार्ड, 05 पैन कार्ड की छायाप्रति फोटो ग्राफ, 02 आधार कार्ड, 01 सैमसंग मॉनिटर, 01 इन्टैक्स सीपीयू, क्लोन बनाने की मशीन, 01 कलर प्रिन्टर, 02 वायरलैस डिवाइस, 01 स्याही की शीशी, 05 खाली मोहर आदि

अभियुक्तों द्वारा थाना खुर्जा नगर क्षेत्र के ग्राम किला मेवाई निवासी देवेन्द्र सिंह के साथ आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर उनके व उनके परिवार के अंगूठों के निशान व आधार कार्ड लेकर दिनांक 16.05.2021 से 04.07.2021 तक कुल 4.85 लाख रुपये फर्जी तरीके से अंगूठे के निशान का बायोमेट्रिक क्लोन व आधारकार्ड का प्रयोग कर निकाल लिये गये थे जिसके संबंध में थाना खुर्जा नगर पर मुअसं-992/21 धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था। उक्त मुकदमें में दौराने विवेचना 467,468,471,34 भादवि की वृद्धि की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों में से संजय उपरोक्त के विरुद्ध थाना खुर्जा नगर पर निम्न अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त संजय का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-163/21 धारा 307,323,354,452,504,506 भादवि थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।
- 2- मुअसं-313/16 धारा 135 विद्युत अधि० थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।
- 3- मुअसं-992/21 धारा 420,467,468,471,34 भादवि व 66डी आईटी एक्ट थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना खुर्जानगर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

साइबर क्राइम सेल टीम के नाम-

- 1- उ०नि० श्री राजीव गौड़ प्रभारी साइबर क्राइम सेल
- 2- आरक्षी पंकज कुमार, आरक्षी नागेंद्र कुमार, आरक्षी संजीप कुमार, आरक्षी पंकज कुमार, आरक्षी लोकेश कुमार

थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम-

- 1- श्री दीक्षित कुमार त्यागी प्रभारी निरीक्षक खुर्जा नगर
- 2- उ०नि० सुमित कुमार
- 3- आरक्षी विनोद कुमार, होमगार्ड मनोज